

हीमोफीलिया के लिये जीन थेरेपी उपचा

स्रोत: द हट्टि

भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया A के लिये एक नवीन **जीन थेरेपी** विकसित की है, जो बार-बार दिये जाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन के स्थान पर एक बार में उपचार प्रदान करती है।

- वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किये गए परीक्षण में पाँच रोगियों को एक वर्ष से अधिक समय तक रक्तस्राव की कोई समस्या नहीं हुई।
- हीमोफीलिया A एक **आनुवंशिक विकार** है जो **फैक्टर VIII की कमी** के कारण होता है, जो **रक्त के थक्के बनने में** बाधा उत्पन्न करता है। भारत में 40,000 से 100,000 तक रोगी हैं तथा यह विश्व में हीमोफीलिया से प्रभावित लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।
 - हीमोफीलिया A **X-लिक्ड अप्रभावी पैटर्न में वंशानुगत होता है। दोषपूर्ण X गुणसूत्र** वाले पुरुषों में हीमोफीलिया होता है, जबकि महिलाओं को प्रभावित होने के लिये दो दोषपूर्ण X गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है।
 - जीन थेरेपी वर्तमान उपचारों का एक कफायती विकल्प है, जिसकी लागत दस वर्षों में 2.54 करोड़ रुपए तक हो सकती है और यह आजीवन प्रभावी होती है।
- जीन थेरेपी में रोगी की कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से प्रतस्थापित किया जाता है।
- **रॉकटेवियन**, एकमात्र अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित जीन थेरेपी है, जो यकृत में **फैक्टर VIII उत्पादन के लिये जीन परिवहन हेतु एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग** करती है, लेकिन यह **बच्चों के लिये अनुमोदित नहीं है।**
- वेल्लोर परीक्षण में एक **लेंटवायरस वेक्टर का उपयोग** किया गया, जिसे **बच्चों के लिये अधिक सुरक्षित और संभावित रूप से उपयुक्त** माना गया, तथा जो सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में जीन थेरेपी के लिये नई संभावनाएँ प्रदान करता है।

और पढ़ें: [वशिव हीमोफीलिया दविस](#)